WORKS DEPARYMENT



GOVERNMENT OF BIHAR

CIRCLE - R.W.D. works Circle, Kishanganj

DIVISION - R.W.D. works Division, Kishanganj-2

Name of Work :-

L023 - L021 TO TANGAN TAPPU (0.700 KM)

Block :-

Dighalbank

Estimated cost :-

Rs 3306633.00

Year: 2021-22

Inspection Report for Flood Damage Work

: Kishangang-2 1.Name of PIUs : Dzghalbank 2. Name Of Block / Road L023-L021 to Tongan tappu (0-700Km) A. For Road 1.Damage Location / Chainage : 85 W 2. Damage Length : Cut and exossion of Flankeerust 3. Nature Of Damage Bomboopilling, Sand Filling, Bruin bot laying, &c bag with Local saw 4. Details Of Restoration : Bamboo, Sand, Brich bet Echay, L-Sand i) Material Being Used In Restoration : Tractor Trolly JCB, who tods ii) Equipment / Tools Being Used In Restoration Works : Marually iii) Procedure Taken Up In Restoration Works 85m iv) Restored Length B. For Bridge 1.Damage Location / Chainage 2. Damage Length 3. Nature Of Damage 4. Details Of Restoration i) Material Being Used In Restoration ii) Equipment / Tools Being Used in Restoration Works iii) Procedure Taken Up In Restoration Works : : iv) Restored Length Satzisfactory.

(Name Of Inspector)

प्रस्तुत प्राक्कलन ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, किशनगंज-2 अंतर्गत दीघलबैंक प्रखंड के पथ "LO23 – LO21 TO TANGHAN TAPPU" जो विभागीय Online Monitoring Syatem MIS पर अपलोड है के बाढ 2021 से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण यातायात लायक Motorable हेतु बनाया गया है | इस कार्य को कराने का निर्देश ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक:- मु०अ०- 4 (मु०) विविध कार्य-23-60/2020 - 1937 / पटना, दिनांक- 07.07.2021 से प्राप्त है | इस पत्र से Real time geo-tagged photograph को कार्य के दौरान अपलोड करते हुए (Motorable) कार्य कराना सुनिश्चित करने का निर्देश प्राप्त है।

उक्त निर्देश के आलोक में कंकई नदी उपधार नदी/नदी उपधार से आए बाढ़ के कारण इस पथ के Road wayके क्षतिग्रस्त हो जाने से सुरक्षित आवागमन हेतु Motorable कार्य के साथ-साथ सुरक्षात्मक कार्य कराया गया है | MIS में अपलोडेड फोटो क्षतिग्रस्त होने का,कार्य होने के दौरान का एवं पुनः स्थापित हो जाने के बाद का Lat/Long रियल टाइम के साथ लिया गया है | नेपाल तराई से निकलने वाली इस नदी के तेज धार से इस पथ में कटाव की स्थिति बनी | Motorable कार्य में आवश्यकता अनुसार Bamboo Pilling / Pitching of E.C. Bags filled with local sand / Local sand filling / Brick bats का इस्तेमाल किया गया है | Motorable कार्य कराकर यातायात बहाल कर दिया गया है | निर्देशानुसार कराये गए कार्य का Geo-tagged photo real time के साथ MIS पर अपलोड है | MIS की छायाप्रति, अपलोडेड फोटोग्राफ की छायाप्रति, दर विश्लेषण एवं विभागीय आदेशों की छायाप्रति प्राक्कलन में संलग्न की जा रही है । प्राक्कलन में प्रयुक्त दर अद्धतन है ।

प्राक्कलन की यथा शीघ्र अनुमोदन अपेक्षित है ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके |

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य प्रशाखा- दीघलबैंक

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य अवर प्रमंडल- दीघलबैंक

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य प्रमंडल, किशनगंज -2

ABSTRACT OF COST

Name of Work:-		L023 - L021 TO TANGAN TAPPU (0.700 KM)						
Block :-		Dighalbank						
SI. No.		Particulars	Amount (In Rs.)					
Α	Cost of Re	storation work :-	Rs 2801328.0					
В	Add 12 %	GST	Rs 336159.00					
С	Add 1 % L.	Cess	Rs 28013.00					
D	Add S.Fee	@ 10 % of Material Cost	Rs 141133.00					
		Total Cost with GST, LC & S.Fee	Rs 3306633.00					

Dighalbank

R.W.D Dighalbank

Kishanganj - 2

Ticheneally Sometion B. 33,06,633. W (Thirty three laws Six Showsan six hundred thory three) my. श्रियको अधिक्षण अधियंति प्रामीण कार्य विभाग ०४ | १५ | १२२ कार्य अंचल, किशनगंज हन्न

Detailed Estimate

Amour					****		(0.70		L023 - L021 TO TANGA		ne of W	SI.
	Rate	Unit	Qty.	Height		Length	No.	No.	Description	MORD Ref.No	SDB Sl. No.	o. Io.
(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	mm dia	(M) mm to 7	(M)	(M) for cutting	abour	including l	Providing bamboo piles	5.7.7	WRD	1
									bamboo piles to size and			
			THE SHEET PROPERTY						specification and directi			
			315.00	-	-	3.00		1				
			315.00	2	-	3.00	105	1				
		-	264.00		-	3.00	88	1				
46703	52.24	Mtr.	894.00	Total:-			amba	vina calit h	Providing, fitting and fix	F 7 0	WADD	2
									20 swg G.I. wire or 75 m	5.7.8	WRD	2
									of G.I. wire or nails, bar			
			incation	s per sper	c job as	compice	, ai 101		and direction of E / I.			
			0.00	-	0.00	0.00	0	0				
			0.00		0.00	0.00	0	0				
0	426.14	Sqm	0.00	Total:-		7.	2,375		Complete - Car			
									Supplying, fitting and f	5.7.9	WRD	3
									position at every vertical			
			e job as	comple	u iabou	aterial an			including cost of G.I. wir per specification and dire		15.	
			90.00		_	30.00	3	1	per specification and unit			
			90.00	-	-	30.00	3	1				
			75.00	-	-	25.00	3	1				
7066.	27.71	Mtr.	255.00	Total:-					C			
									Supplying and placing ba		WRD	
									75 mm dia 6 m to 8 m			
				along its I	nlaces	t at three	at labo	25 SIMG =	with annealed wire 20 to			
	-			and trying	t bags	ty cemer	n emp	ick bats) ii	nos loads filled with (Br			
			d trying	and trying osition ar	it bags ing in p	ty cemer	n emp n river	ick bats) in aunching in	nos loads filled with (Br B.A. wire 8 to 10 SWG la			
			d trying bank to	and trying osition ar the river	it bags ing in p from t	ty cemer and plac 5M away	n emp n river east 1	ick bats) in aunching in e end at le	nos loads filled with (Br B.A. wire 8 to 10 SWG la the bamboo roll at one			
			d trying bank to carriage	and trying osition ar the river etc. and	it bags ing in p from t royality	ty cemer and plac 5M away post &	n emp n river east 1 ambo	ick bats) in aunching in e end at le piling of b	nos loads filled with (Br B.A. wire 8 to 10 SWG la the bamboo roll at one Bamboo post, including			
			d trying bank to carriage	and trying osition ar the river etc. and	it bags ing in p from t royality	ty cemer and plac 5M away post &	n emp n river east 1 ambo	ick bats) in aunching in e end at le piling of b	nos loads filled with (Br B.A. wire 8 to 10 SWG la the bamboo roll at one Bamboo post, including of all materials at site all			
			d trying bank to carriage ection of	and trying osition ar the river etc. and	it bags ing in p from t royality	ty cemer and plac 5M away post &	n emp n river east 1 ambo job a	ick bats) in aunching in e end at le piling of b	nos loads filled with (Br B.A. wire 8 to 10 SWG la the bamboo roll at one Bamboo post, including			
			d trying bank to carriage ction of 0.00	and trying osition ar the river etc. and	it bags ing in p from t royality	ty cemer and plac 5M away post &	n emp n river east 1 ambo job a	ick bats) in aunching in e end at le piling of b complete	nos loads filled with (Br B.A. wire 8 to 10 SWG la the bamboo roll at one Bamboo post, including of all materials at site all			
0	1118 26	No	d trying bank to carriage oction of 0.00 0.00	and trying osition ar the river etc. and n and dire	it bags ing in p from t royality	ty cemer and plac 5M away post &	n emp n river east 1 ambo job a	ick bats) in aunching in e end at le piling of b	nos loads filled with (Br B.A. wire 8 to 10 SWG la the bamboo roll at one Bamboo post, including of all materials at site all			
0.	1118.26	No.	d trying bank to carriage ection of 0.00 0.00 0.00	and trying osition ar the river etc. and n and dire	ing in p from t royality cification	ty cemer and plac 5M away o post & s per spec	n emp n river east 1 ambo job a 0 0	ick bats) in aunching in e end at le piling of b I complete	nos loads filled with (Br B.A. wire 8 to 10 SWG la the bamboo roll at one Bamboo post, including of all materials at site all E/I.	5.7.47	WRD	
0.	1118.26	No.	d trying bank to carriage ection of 0.00 0.00 0.00 Jhankhi	and trying osition ar the river etc. and n and dire Total:-	it bags ing in p from t royality dification	ty cemer and plac 5M away o post & s per spec	n emp n river east 1 ambo job a 0 0	ick bats) in aunching in aunching in aunching in a end at le piling of bl complete	nos loads filled with (Br B.A. wire 8 to 10 SWG la the bamboo roll at one Bamboo post, including of all materials at site all E/I.	5.7.47 (a)	WRD	
0.	1118.26	No.	d trying bank to carriage ection of 0.00 0.00 0.00 Jhankhi nos. of	and trying osition ar the river etc. and n and dire - Total:- hes and oviding 3	it bags ing in professions from the royality diffication in the profession in the pr	ty cemer and plac 5M away o post & s per spec tion Tree of 2.832	n emp n river east 1 ambo job a 0 0	ick bats) in aunching in aunching in aunching in a end at le piling of bl complete	nos loads filled with (Br B.A. wire 8 to 10 SWG la the bamboo roll at one Bamboo post, including of all materials at site all E/I. Supplying, making and covering cover over all s	5.7.47 (a)	WRD	
0.	1118.26	No.	d trying bank to carriage ection of 0.00 0.00 Uhankhi nos. of nnealed	and trying osition are the river etc. and n and direct the sand oviding 325 SWG a	ing in professions in profession in professions in profession in profession in pr	ty cemer and place 5M away o post & s per spect tion Tree of 2.832 rying with	n emp n river east 1 ambo job a 0 0	ick bats) in aunching in aunching in aunching in a new piling of bill complete	nos loads filled with (Br B.A. wire 8 to 10 SWG la the bamboo roll at one Bamboo post, including of all materials at site all E/l. Supplying, making and covering cover over all s loads by filling boulder sp	5.7.47 (a)	WRD	
0.	1118.26	No.	d trying bank to carriage ection of 0.00 0.00 Uhankhi nos. of nnealed SWG to	and trying osition are the river etc. and in and direct the sand oviding 3 25 SWG are 8 to 10	ing in p from to royality diffication be brance Cum produced and to 20 B.A.wir	ty cemer and place 5M away o post & s per spece tion Tree of 2.832 rying with	n emp n river east 1 ambo job a 0 0	ick bats) in aunching in aunching in aunching in aunching of below to the pilling in aunching in aunch	nos loads filled with (Br B.A. wire 8 to 10 SWG la the bamboo roll at one Bamboo post, including of all materials at site all E/I. Supplying, making and covering cover over all s loads by filling boulder sp wire to the tree spur and	5.7.47 (a)	WRD	
0.	1118.26	No.	d trying bank to carriage ection of 0.00 0.00 Uhankhi nos. of nnealed SWG to billing of	and trying osition are the river etc. and in and direct the sand oviding 3 25 SWG are 8 to 10 ncluding	ing in p from to royality diffication be brance Cum promoted to 20 to 2 B.A.wir bank in	ty cemer and place 5M away o post & s per spect tion Tree of 2.832 rying with ame with	n emp n river east 1 ambo job a 0 0 0 n pos bour pags, t g the s	ick bats) in aunching in aunching in aunching in aunching of below to the piling in aunching in aunching to 15M aware to the piling in aunching to the piling in aunching to the piling to the piling in aunching to the piling to the	nos loads filled with (Br B.A. wire 8 to 10 SWG lathe bamboo roll at one Bamboo post, including of all materials at site all E/I. Supplying, making and covering cover over all sloads by filling boulder spwire to the tree spur and the bamboo post at least	5.7.47 (a)	WRD	
0.	1118.26	No.	d trying bank to carriage ection of 0.00 0.00 Uhankhi nos. of nnealed SWG to billing of	and trying osition are the river etc. and in and direct the sand oviding 3 25 SWG are 8 to 10 ncluding	ing in p from to royality dification e brance Cum promo 20 to 2 B.A.wirr bank i all mat	ty cemer and place 5M away o post & s per spect tion Tree of 2.832 rying with ame with the river iage of	n emp n river east 1 ambo job a 0 0 0 n pos bour pags, t g the s y fron d carr	ick bats) in aunching in aunching in e end at le piling of bil complete placing ir space of a pall in EC bil anchoring tach aunchoring yetc. and	nos loads filled with (Br B.A. wire 8 to 10 SWG lathe bamboo roll at one Bamboo post, including of all materials at site all E/I. Supplying, making and covering cover over all sloads by filling boulder spwire to the tree spur and the bamboo post & royality bamboo post & royality.	5.7.47 (a)	WRD	
0.	1118.26	No.	d trying bank to carriage ection of 0.00 0.00 Uhankhi nos. of nnealed SWG to billing of	and trying osition are the river etc. and in and direct the sand oviding 3 25 SWG are 8 to 10 ncluding	ing in p from to royality dification e brance Cum promo 20 to 2 B.A.wirr bank i all mat	ty cemer and place 5M away o post & s per spect tion Tree of 2.832 rying with ame with the river iage of	n emp n river east 1 ambo job a 0 0 0 n pos bour pags, t g the s y fron d carr	ick bats) in aunching in aunching in e end at le piling of bil complete placing ir space of a pall in EC bil anchoring tach aunchoring yetc. and	nos loads filled with (Br B.A. wire 8 to 10 SWG lathe bamboo roll at one Bamboo post, including of all materials at site all E/I. Supplying, making and covering cover over all sloads by filling boulder spwire to the tree spur and the bamboo post at least	5.7.47 (a)	WRD	
0.	1118.26	No.	od trying bank to carriage oction of 0.00 0.00 Uhankhi nos. of nnealed SWG to billing of site all	and trying osition are the river etc. and in and direct the sand oviding 3 25 SWG are 8 to 10 ncluding	ing in p from to royality dification e brance Cum promo 20 to 2 B.A.wirr bank i all mat	ty cemer and place 5M away o post & s per spect tion Tree of 2.832 rying with ame with the river iage of	n emporized to a model of the state of the s	ick bats) in aunching in aunching in end at le piling of blicomplete placing ir space of a pall in EC blich auchoring to 15M away etc. and ification ar	nos loads filled with (Br B.A. wire 8 to 10 SWG lathe bamboo roll at one Bamboo post, including of all materials at site all E/I. Supplying, making and covering cover over all sloads by filling boulder spwire to the tree spur and the bamboo post & royality bamboo post & royality.	5.7.47 (a)	WRD	
			d trying bank to carriage ection of 0.00 0.00 Uhankhi nos. of nnealed SWG to billing of site all	and trying osition are the river etc. and n and direct and oviding 3 25 SWG are 8 to 10 ncluding erials at	ing in p from to royality dification e brance Cum promo 20 to 2 B.A.wirr bank i all mat	ty cemer and place 5M away o post & s per spect tion Tree of 2.832 rying with ame with the river iage of	n emp n river east 1 ambo job a 0 0 0 n posi bour pags, t g the s y fron d carr	ick bats) in aunching in aunching in end at le piling of blicomplete Oplacing ir space of a pall in EC blich auchoring to 15M away etc. and ification ar	nos loads filled with (Br B.A. wire 8 to 10 SWG lathe bamboo roll at one Bamboo post, including of all materials at site all E/I. Supplying, making and covering cover over all sloads by filling boulder spwire to the tree spur and the bamboo post & royality bamboo post & royality.	5.7.47 (a)	WRD	
0.0	1118.26 1562.35	No.	d trying bank to carriage ection of 0.00 0.00 Uhankhi nos. of nnealed SWG to billing of site all	and trying osition are the river etc. and in and direct the sand oviding 3 25 SWG are 8 to 10 ncluding	e brance Cum pr 1 20 to 2 B.A.wirr bank i all mat	ty cemer and place 5M away o post & 5 per spect tion Tree of 2.832 rying with ame with the river riage of	n emporized to empore the empore to east 1 ambo job at 0 o o o o o o o o o o o o o o o o o o	placing ir space of a pall in EC to anchoring ir space of a pall in EC to anchoring it 15M away etc. and ification ar	nos loads filled with (Br B.A. wire 8 to 10 SWG lathe bamboo roll at one Bamboo post, including of all materials at site all E/l. Supplying, making and covering cover over all sloads by filling boulder spwire to the tree spur and the bamboo post at least bamboo post & royalit complete job as per speci	5.7.47 (a)		
			od trying bank to carriage ection of 0.00 0.00 Uhankhi nos. of nnealed SWG to billing of site all 0.00 0.00 0.00 0.00	and trying osition are the river etc. and n and direct and oviding 3 25 SWG are 8 to 10 ncluding erials at	ing in p from to royality cification be brance Cum prom 120 to 2 B.A.wir bank in all mate	ty cemer and place 5M away o post & 5 per spect tion Tree of 2.832 rying with ame with the river riage of ection of E	n emporized to a river of the state of the s	placing ir space of a pall in EC to anchoring to 15M away etc. and iffication ar 0 0	nos loads filled with (Br B.A. wire 8 to 10 SWG lathe bamboo roll at one Bamboo post, including of all materials at site all E/l. Supplying, making and covering cover over all sloads by filling boulder spwire to the tree spur and the bamboo post at least bamboo post & royality complete job as per specific complete of subgrafic construction	5.7.47 (a)	WRD 3.14	
			d trying bank to carriage ection of 0.00 0.00 Uhankhi nos. of nnealed SWG to billing of site all 0.00 0.00 0.00 unaterial	and trying osition are the river etc. and in and direct and oviding 3 25 SWG are 8 to 10 including erials at	e brance Cum proper bank is all mate.	ty cemer and place 5M away o post & s per spece tion Tree of 2.832 rying with ame with a the river riage of ection of E	n empore river east 1 ambo job as 0 0 0 o o o o o o o o o o o o o o o o	placing ir space of a pall in EC to a normal in	nos loads filled with (Br B.A. wire 8 to 10 SWG lathe bamboo roll at one Bamboo post, including of all materials at site all E/I. Supplying, making and covering cover over all sloads by filling boulder spwire to the tree spur and the bamboo post at least bamboo post & royalit complete job as per specific construction of subgrade Construction of subgrade	5.7.47 (a)		
			d trying bank to carriage ection of 0.00 0.00 Uhankhi nos. of nnealed SWG to billing of site all 0.00 0.00 0.00 naterial to site,	and trying osition are the river etc. and in and direct etc. and on and direct etc. and oviding 3 25 SWG are 8 to 10 including erials at erials at experience opproved resporting	the bags ing in professions in profe	ty cemer and place 5M away o post & s per spece tion Tree of 2.832 rying with ame with a the river iage of ection of B	n empore river east 1 ambo job as 0 0 0 on possibour pags, to g the say from d carrind direction of the same sall lifts	placing ir space of a pall in EC by anchoring it 15M away etc. and iffication ar on the polity with a polity with a pall in EC by anchoring and early etc.	nos loads filled with (Br B.A. wire 8 to 10 SWG lathe bamboo roll at one Bamboo post, including of all materials at site all E/I. Supplying, making and covering cover over all sloads by filling boulder spwire to the tree spur and the bamboo post at least bamboo post at least bamboo post a royality complete job as per specific construction of subgrade obtained from borrow processing subgrade obtained fr	5.7.47 (a)		
			d trying bank to carriage ection of 0.00 0.00 Uhankhi nos. of nnealed SWG to billing of site all 0.00 0.00 0.00 naterial to site, rement	and trying osition are the river etc. and in and direct etc. and oviding 3 25 SWG are 8 to 10 including erials at a sporting operating ineet required.	e branc Cum proper bank i B.A.wir bank i all mate E/I.	ty cemer and place 5M away to post & sper spece from the river ame with a the river and lead houlders and lead compact	n empore river east 1 ambo job as 0 0 0 o o o o o o o o o o o o o o o o	placing ir space of a pall in EC to anchoring to 15M away etc. and iffication ar 0 0 0 ade and each quired slopp	nos loads filled with (Br. B.A. wire 8 to 10 SWG lathe bamboo roll at one Bamboo post, including of all materials at site all E/I. Supplying, making and covering cover over all sloads by filling boulder spwire to the tree spur and the bamboo post at least bamboo post & royality complete job as per specific construction of subgrade obtained from borrow perpreading, grading to reconstruction, grading to reconstruction.	5.7.47 (a)		
			d trying bank to carriage ection of 0.00 0.00 Uhankhi nos. of nnealed SWG to billing of site all 0.00 0.00 0.00 naterial to site, rement	and trying osition are the river etc. and in and direct etc. and oviding 3 25 SWG are 8 to 10 including erials at a sporting operating ineet required.	e branc Cum proper bank i B.A.wir bank i all mate E/I.	ty cemer and place 5M away to post & sper spece from the river ame with a the river and lead houlders and lead compact	n empore river east 1 ambo job as 0 0 0 o o o o o o o o o o o o o o o o	placing ir space of a pall in EC to anchoring to 15M away etc. and iffication ar 0 0 0 ade and each quired slopp	nos loads filled with (Br B.A. wire 8 to 10 SWG lathe bamboo roll at one Bamboo post, including of all materials at site all E/l. Supplying, making and covering cover over all sloads by filling boulder spwire to the tree spur and the bamboo post at least bamboo post & royality complete job as per specific complete job as per specific construction of subgrade obtained from borrow per spreading, grading to reconstruction of subgrade of Table 300.2 with lead	5.7.47 (a)		
			d trying bank to carriage ection of 0.00 0.00 Uhankhi nos. of nnealed SWG to billing of site all 0.00 0.00 0.00 naterial to site, rement	and trying osition are the river etc. and in and direct etc. and oviding 3 25 SWG are 8 to 10 including erials at a sporting operating ineet required.	e branc Cum proper bank i B.A.wir bank i all mate E/I.	ty cemer and place 5M away to post & sper spece from the river ame with a the river and lead houlders and lead compact	n empore river east 1 ambo job as 0 0 0 o o o o o o o o o o o o o o o o	placing ir space of a pall in EC to anchoring to 15M away etc. and iffication ar 0 0 0 ade and each quired slopp	nos loads filled with (Br. B.A. wire 8 to 10 SWG lathe bamboo roll at one Bamboo post, including of all materials at site all E/I. Supplying, making and covering cover over all sloads by filling boulder spwire to the tree spur and the bamboo post at least bamboo post & royality complete job as per specific construction of subgrade obtained from borrow perpreading, grading to reconstruction, grading to reconstruction.	5.7.47 (a)		
			d trying bank to carriage ection of 0.00 0.00 0.00 Uhankhi nos. of nnealed SWG to billing of site all 0.00 0.00 0.00 material to site, rement Clause	and trying osition are the river etc. and in and direct and oviding 3 25 SWG are 8 to 10 including erials at a sporting ineet requirectification.	e brance Cum proper bank in all mate. E/I. Lers with apids, transed to minical Special propers.	ty cemer and place 5M away to post & sper spece of 2.832 rying with ame with a the river riage of ection of 8 and lead compact per Technical per Technical compact per Technical	n empore river east 1 ambo job as 0 0 0 o o o o o o o o o o o o o o o o	placing ir space of a pall in EC by anchoring ir space of a pall in EC by anchoring it 15M away etc. and ification ar and early etc.	nos loads filled with (Br B.A. wire 8 to 10 SWG lathe bamboo roll at one Bamboo post, including of all materials at site all E/l. Supplying, making and covering cover over all sloads by filling boulder spwire to the tree spur and the bamboo post at least bamboo post & royality complete job as per specific complete job as per specific construction of subgrade obtained from borrow per spreading, grading to reconstruction of subgrade of Table 300.2 with lead	5.7.47 (a)		

SI. No.	SDB SI. No.	MORD Ref.No	Description	No.	No.	Length (M)	Width (M)	Height (M)	Qty.	Unit	Rate (Rs.)	Amoui (Rs.)	
			Restoration of raincuts with soil, moorum, gravel or a mixture of these,										
			clearing, the loose soil, ber	1000									
			layers not exceeding 250				PS00000 S000 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10						
		1	power rammers to restore	the orig	ginal a	lignment	, level ar	nd slopes	i.				
			N OF R SECTION AND ADDRESS OF THE	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00				
				0	0	0.00	0.00	0.00	0.00				
							4	Total:-	0.00	Cum	378.68	(
6	9.2	1100	Sand filling or Type B (F	irst cla	ss) b	edding							
	(i)	& 800	Fillling and spreading local sand over brick bats as per drawing and										
			technical specification Clau	se 305.	3.9								
				1	1	30.00	4.65	0.15	20.93				
				1	1	30.00	4.52	0.15	20.34				
-				1	1	25.00	5.23	0.15	19.61				
								Total:-	60.88	Cum	514.43	31318	
7	WRD	5.7.40	Brick bats										
			Providing laying and sprea					es all co	nplete as				
			per approved design, specif										
				1	1	30.00	4.65	2.60	362.70				
				. 1	1	30.00	4.52	2.65	359.34				
-				1	1	25.00	5.23	2.60	339.95	C	2160 72	2202150	
12	-	E 7 E 2	Duoviding and filling am					Total:-	1061.99	Cum	2168.72	2303159	
13		5.7.53	Providing and filling empty cement bags										
			Supply of new bag with a load of filled bag 1.2 approved nylon thread with bags and placing with a lea all complete as per approved.										
			an complete as per approve										
				. 1	1	30.00	5.50	1.50	247.50				
				1	1	15.00	5.60	1.45	121.80				
				Total:- 369.30 @ 0.034 Cum each bag 10862							20.00	442055	
				J		დ 0.03	4 Cum e	ach bag	10862	No.	38.03	413082	
											IOTAL	2801328	

SEIGNORAGE FEE 10% FOR ROYALTY MATERIAL

 The state of the s							
LOCAL SAND	60.88	1.20	=	73.06	Cum	141.85	10363
BRICK BAT	1061.99	1.20	=	1274.39	Cum	1,050.00	1338107
GSB	0.00	1.28	=	0.00	Cum	285.35	0
LOCAL SAND	369.30	1.20	=	443.16	Cum	141.85	62862
			-	OTAL BAATE	DIALC	OCT	

TOTAL MATERIAL COST:-SEIGNORAGE FEE 10%

1411332

R.W.D

Dighalbank

A.E R.W.D

Dighalbank